



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 09.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### अपनों ने किया किनारा; महिला बीट अधिकारी बनीं सहारा मिशन शक्ति ने लौटाई मुस्कान



दिनांक 21.08.2021 से अबतक "मिशन शक्ति" तृतीय फेज के क्रम में पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की महिला बीट आरक्षियों द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अपने-अपने बीट/गांवों में जाकर मिशन शक्ति के अन्तर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गई। मिशन शक्ति के अन्तर्गत कुल 306 प्रार्थना पत्र मिले जिसमें सभी का सकुशल निस्तारण किया गया। गांव-गांव जाकर महिला बीट आरक्षियों द्वारा प्रार्थना पत्र की भलीभाँति जांच कर उनका निस्तारण कराया गया, जिसमें सभी कार्यों को गांव के व्यक्तियों द्वारा सराहा गया। मिशन शक्ति के दौरान महिला बीट आरक्षियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें से कुछ सराहनीय कार्य का विवरण निम्नलिखित है:-

दिनांक 27.08.21 को ग्राम कुरतहिया मजरा गनेशपुर थाना ईसानगर में मिशन शक्ति कक्ष में महिला आरक्षी सुमनतला द्वारा महिलाओं की समस्याओं के दौरान श्रीमती फूलमती पत्नी दर्शन उम्र 70 वर्ष निवासी कुरतहिया द्वारा प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उसका लड़का घर में रहने नहीं देता है। वह घर से बाहर छप्पर में रहती हैं तथा खाने पीने की व्यवस्था भी लड़का नहीं करता है, जिस पर महिला आरक्षी सुमनलता द्वारा सहयोगी का0 विनीत कुमार के सहयोग से मौके पर जाकर आवेदिका के पुत्र मिन्तर को समझा बुझाकर एवं अन्य गांव वालों के सहयोग से आवेदिका को उसका घर दिलाया गया एवं उसकी पैतृक सम्पत्ति जमीन आदि पर आवेदिका को कब्जा दिलाया गया जिस पर आवेदिका द्वारा पूर्ण संतुष्टि प्रकट की गयी तथा ग्रामवासियों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।

## थाना खीरी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त राजू को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा अ0सं0 238/16 धारा 354/323/452/504 भादवि0 7/8 पॉक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त आसाराम पुत्र बिन्द्रा नि0 ग्राम राजेपुर थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया।

## थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद कारतूस सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन वर्मा पुत्र पवन वर्मा निवासी देउवापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 867/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 120 लीटर अवैध शराब सहित 09 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **120 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 09 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **09 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	कोतवाली सदर	40 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सम्पूर्णानगर	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना ईसानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सिंगाही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना चन्दन चौकी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	120 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार